

CLASS : 10th (Secondary)

4280/4232

Series : Sec. M/2019

Total No. of Printed Pages : 7

MARKING INSTRUCTIONS AND MODEL ANSWERS

National Skills Qualification Framework (NSQF)

TOURISM-HOSPITALITY

(Only for Fresh/Re-appear Candidates)

उप परीक्षक मूल्यांकन निर्देशों का ध्यानपूर्वक अवलोकन करके उत्तर-पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करें। यदि परीक्षार्थी ने प्रश्न पूर्ण व सही हल किया है तो उसके पूर्ण अंक दें।

General Instructions :

- (i) Examiners are advised to go through the general as well as specific instructions before taking up evaluation of the answer-books.
- (ii) Instructions given in the marking scheme are to be followed strictly so that there may be uniformity in evaluation.
- (iii) Mistakes in the answers are to be underlined or encircled.
- (iv) Examiners need not hesitate in awarding full marks to the examinee if the answer/s is/are absolutely correct.

4280/4232

P. T. O.

- (v) *Examiners are requested to ensure that every answer is seriously and honestly gone through before it is awarded mark/s. It will ensure the authenticity as their evaluation and enhance the reputation of the Institution.*
 - (vi) *A question having parts is to be evaluated and awarded partwise.*
 - (vii) *If an examinee writes an acceptable answer which is not given in the marking scheme, he or she may be awarded marks only after consultation with the head-examiner.*
 - (viii) *If an examinee attempts an extra question, that answer deserving higher award should be retained and the other scored out.*
 - (ix) *Word limit wherever prescribed, if violated upto 10%. On both sides, may be ignored. If the violation exceeds 10%, 1 mark may be deducted.*
 - (x) *Head-examiners will approve the standard of marking of the examiners under them only after ensuring the non-violation of the instructions given in the marking scheme.*
 - (xi) *Head-examiners and examiners are once again requested and advised to ensure the authenticity of their evaluation by going through the answers seriously, sincerely and honestly. The advice, if not headed to, will bring a bad name to them and the Institution.*
-

महत्त्वपूर्ण निर्देश :

- (i) अंक-योजना का उद्देश्य मूल्यांकन को अधिकाधिक वस्तुनिष्ठ बनाना है। अंक-योजना में दिए गए उत्तर-बिन्दु अन्तिम नहीं हैं। ये सुझावात्मक एवं सांकेतिक हैं। यदि परीक्षार्थी ने इनसे भिन्न किन्तु उपयुक्त उत्तर दिए हैं, तो उसे उपयुक्त अंक दिए जाएँ।
- (ii) शुद्ध, सार्थक एवं सटीक उत्तरों को यथायोग्य अधिमान दिए जाएँ।
- (iii) परीक्षार्थी द्वारा अपेक्षा के अनुरूप सही उत्तर लिखने पर उसे पूर्णांक दिए जाएँ।
- (iv) वर्तनीगत अशुद्धियों एवं विषयांतर की स्थिति में अधिक अंक देकर प्रोत्साहित न करें।
- (v) भाषा-क्षमता एवं अभिव्यक्ति-कौशल पर ध्यान दिया जाए।
- (vi) मुख्य-परीक्षकों/उप-परीक्षकों को उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने के लिए केवल Marking Instructions/ Guidelines दी जा रही है, यदि मूल्यांकन निर्देश में किसी प्रकार की त्रुटि हो, प्रश्न का उत्तर स्पष्ट न हो, मूल्यांकन निर्देश में दिए गए उत्तर से अलग कोई और भी उत्तर सही हो तो परीक्षक, मुख्य-परीक्षक से विचार-विमर्श करके उस प्रश्न का मूल्यांकन अपने विवेक अनुसार करें।

Note : Attempt any **3** questions from question
Number **1** to **4**. **Rest are compulsory.**

1. Natural resources, climate, natural beauty ,
flora, wildlife. 6
2. Industry people, Brochures, Journals,
Publications. 6
3. Generate income and employment, source of
Forex, Develop infrastructure, promote peace. 6
4. Significance of health ceatificate and travel
insurance. 3 + 3 = 6
5. Meetings, Incentives, Conferences, Expositions. 3
6. Role of STDC. 3
7. Diversity in cultureal background . Examples.
3
8. To have neat and tidy appearance. 3

- 9.** When attraction is a place or site. Examples. 3
- 10.** Beaches, Trekking, Water sports, scuba diving. 3
- 11.** Permission given by a nation to enter its territory. 2
- 12.** When tourists from other countries visit a said country. 2
- 13.** Destinations, accomodation, transport facilities. 2
- 14.** Activity conducted for a short period of time for non- remunerative purpose. 2
- 15.** Be timely, polite, learn office politics, flexible. 2

- 16.** Settled way of thinking or feeling or evaluation
about some person, object or issue. 2
- 17.** Gives feelings of comfort and genuine warmth,
respect and interest. 2
- 18.** Outbound Tourists/ Tourists. 1
- 19.** American Breakfast 1
- 20.** Passengers. 1
- 21.** Fresh Water. 1
- 22.** Event. 1
- 23.** Jaisalmer. 1
- 24.** (c) Traditions 1

(7)

4280/4232

25. (c) Rajasthan 1

26. (a) Western Ghat 1

27. (d) 20 1



4280/4232